



आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार



पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

योजना के दिशानिर्देश



स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा
स्ट्रीट वेंडर्स का स्वावलम्बन

आत्मनिर्भर भारत

“ कोरोना वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व स्थिति में देश ने, हमारे गरीब भाई—बहनों ने, विशेषकर रेहड़ी—ठेला—पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथियों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अद्भुत संयम और संघर्ष—शक्ति दिखाई है। उनके आर्थिक हितों के लिए, उन्हें ताक़तवर बनाने के लिए हम सतत् और समग्र प्रयास कर रहे हैं। ”

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

...



स्कीम के दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये पथ विक्रेता शहर में रहने वाले लोगों के घरों तक किफायती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पथ विक्रेताओं को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/संदर्भ में वेंडर, खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन पथ विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकोड़े, ब्रेड, अण्डे, वस्त्र, परिधान, जूते-चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें/लेखन सामग्री आदि शामिल होती हैं। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, लॉट्टी सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। कोविड-19 महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉक डाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गयी होगी। इसलिए, इन पथ विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) हेतु ऋण की अति आवश्यकता है।

2. उद्देश्य

यह केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित है :

- (1) ₹10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता।
- (2) नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- (3) डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।

इस स्कीम से पथ विक्रेताओं को उपरोक्त उद्देश्यों से परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पात्रता

यह स्कीम केवल उन्हीं राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पथ विक्रेता (पथ विक्रेता की आजीविका और विनियमन की सुरक्षा) अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत नियम और स्कीम अधिसूचित की है। तथापि, मेघालय, जिसके पास खुद का राज्य पथ विक्रेता अधिनियम है, के लाभार्थी भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं।

4. लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड

यह स्कीम 24 मार्च, 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी :

- (1) ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र है।
- (2) ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिह्नित कर लिया गया है परंतु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

ऐसे विक्रेताओं को अनंतिम सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुजित किया जाएगा। शहरी



स्थानीय निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे ऐसे विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एवं पहचान पत्र तत्काल एवं एक माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करें।

(3) ऐसे पथ विक्रेता जो शहरी स्थानीय निकाय

आधारित पहचान सर्वेक्षण में छूट गए थे अथवा जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात बिक्री का कार्य शुरू कर दिया है एवं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय / टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी)

द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।

- (4) ऐसे विक्रेता जो आस-पास के विकास/परिनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिक्री कर रहे हैं और जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय / टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी कर दिया गया है।

5. सर्वेक्षण में छूटे हुए/आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों की पहचान

श्रेणी 4 (3) और (4) से संबंधित विक्रेताओं की पहचान करते समय शहरी स्थानीय निकाय / टीवीसी सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी करने हेतु निम्न में से किसी भी दस्तावेज पर विचार कर सकती है।

- (1) लॉक डाउन अवधि के दौरान एककालिक सहायता प्रदान करने के लिए कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई विक्रेताओं की सूची, अथवा
- (2) आवेदक के पहचान के सत्यापन के पश्चात ऋणदाता की सिफारिश के आधार पर सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी करने के लिए प्रणाली सृजित अनुरोध शहरी स्थानीय निकायों / टाउन वेंडिंग कमिटी को भेज दिया गया है, अथवा
- (3) पथ विक्रेता संघों के साथ सदस्यता का ब्यौरा, अथवा
- (4) विक्रेता के पास बिक्री के उसके दावे की पुष्टि के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज, अथवा
- (5) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) इत्यादि सहित शहरी स्थानीय निकाय / टीवीसी द्वारा कराई गई स्थानीय जांच की रिपोर्ट।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया गया है, ऐसे विक्रेताओं की पहचान के लिए कोई अन्य वैकल्पिक उपाय भी अपना सकते हैं।

6. ऐसे विक्रेता, जो कोविड-19 के कारण अपने निवास स्थान पर लौट गए हैं

कुछ चिह्नित/सर्वेक्षित या अन्य विक्रेता, जो शहरी क्षेत्रों में विक्रिय/फेरी लगाने का कार्य कर रहे थे, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि से पूर्व या उसके दौरान अपने मूल निवास स्थान पर चले गए हैं। परिस्थितियों के सामान्य होने के पश्चात् ऐसे विक्रेताओं की वापसी और अपना व्यापार दोबारा आरंभ करने की संभावना है। ये विक्रेता, चाहे ग्रामीण/परि-नगरीय क्षेत्रों से हों या शहरवासी हों, वे ऊपर दिए गए पैरा 4 एवं 5 में उल्लिखित लाभार्थियों की पहचान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार अपनी वापसी पर ऋण के पात्र होंगे।

7. डाटा को सार्वजनिक करना

मंत्रालय/राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट और इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए वेब पोर्टल पर चिह्नित पथ विक्रेताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय—वार सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

8. उत्पाद का संक्षिप्त विवरण

शहरी पथ विक्रेता एक वर्ष की अवधि के लिए ₹10,000 तक के कार्यकारी पूँजी (डब्ल्यूसी) ऋण प्राप्त करने और ऋण वापसी मासिक किस्तों में करने के पात्र होंगे। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा।

समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता संवर्धित सीमा वाले अगले कार्यकारी पूँजी ऋण के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व ऋण वापसी करने पर विक्रेताओं पर कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

8.1. ब्याज दर

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सहकारी बैंकों और एसएचजी बैंकों के मामले में, ये दरें उनकी प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार ही होंगी।

एनबीएफसी, एनबीएफसी—एमएफआई इत्यादि के मामले में, ये ब्याज दरें संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी ।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत शामिल न किए गए एमएफआई (गैर एनबीएफसी) तथा अन्य ऋणदाता श्रेणियों के संबंध में, स्कीम के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी—एमएफआई के लिए वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोज्य होंगी ।

8.2. ब्याज सब्सिडी

इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता, 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे । ब्याज सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में ट्रैमासिक रूप से जमा की जाएगी । ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के दावे ट्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे । उन्हीं उधारकर्ता के खातों के संबंध में सब्सिडी पर विचार किया जायेगा जो संबंधित दावों की तिथि को मानक (वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर—एनपीए) हैं और उन महीनों के दौरान जब संबंधित तिमाही में खाता मानक बना रहा हो ।

यह ब्याज सब्सिडी 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है । यह सब्सिडी प्रथम और बाद के उस तिथि तक वर्धित ऋणों के लिए उपलब्ध होगी ।

पूर्व भुगतान के मामले में, सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जाएगी ।

8.3 विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन—देन को बढ़ावा देना

यह स्कीम कैश बैंक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी । इस तरह से किया गया लेन—देन उनकी भविष्य की ऋण जरूरतों को बढ़ाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर का सूजन करेगा । पे—टीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेजन पे, फोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेनदेनों हेतु किया जाएगा । ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार 50 रुपये—100

रुपये की रेंज में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

- (1) प्रति माह 50 योग्य लेन देन पर ₹50
- (2) प्रति माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेन देन पर ₹25 (यानी की 100 योग्य लेन देन करने पर बैंडर को ₹75 प्राप्त होंगे)
- (3) प्रति माह उससे आगे 100 अतिरिक्त योग्य लेन देन पर ₹25 (यानी की 200 योग्य लेन देन करने पर बैंडर को ₹100 प्राप्त होंगे)

यहां कम से कम ₹25 के डिजिटल प्राप्ति या भुगतान को योग्य लेन—देन माना जाएगा ।

₹10,000 के ऋण पर 24 प्रतिशत की ब्याज दर, 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी तथा प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त की गई कैशबैंक की अधिकतम राशि की EMI का उदाहरण अनुलग्नक—ख में दिया गया है ।

9. ऋण कौन दे सकता है?

अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफसी), सहकारी बैंक, गैर—बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी), माइक्रो वित्त संस्थाएं (एमएफआई) और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित एसएचजी बैंक जैसे स्त्री निधि आदि । ऋण प्रदाता संस्थाओं को उनके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं अर्थात् बैंकिंग कोरेस्पॉर्डेंट (बीसी) / ग्राहकों/एजेंटों को व्यापक रूप से स्कीम का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उनके नेटवर्क का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में एमएफआई संस्थाएं नहीं हैं । तथापि, उनके एसएचजी और उनके फेडेरेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित है जिनका उपयोग पथ विक्रेताओं के ऋण आवेदन जुटाने और संग्रह करने में एससीबी/आरआरबी/एसएफबी/एनबीएफसी और सहकारी बैंकों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

10. ऋण गारंटी

इस स्कीम में संस्वीकृत ऋणों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी

फंड ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारा संचालित किए जाने के लिए ग्रेडेड गारंटी सुरक्षा की व्यवस्था है जो कि पोर्टफोलियो स्तर पर संचालित होगी।

- क) प्रथम हानि डिफॉर्ल्ट (5% तक): 100%
- ख) द्वितीय हानि (5% से 15% तक): डिफॉर्ल्ट पोर्टफोलियो का 75%
- ग) अधिकतम गारंटी कवरेज वर्ष पोर्टफोलियो का 15% होगा।

स्कीम के तहत प्रत्येक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए गए सभी ऋणों पर गारंटी के तहत कवरेज के लिए विचार किया जाएगा। ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने की समयावधि त्रैमासिक होगी।

सभी सहभागी ऋणदाता संस्थाएं किसी प्रभार के बिना इस गारंटी कवर के लिए पात्र होंगी।

इसके अतिरिक्त, जब भी इस स्कीम पर विचार किया जाएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि सीजीटीएमएसई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में विशेष आमंत्रित होगा।

11. टाउन वेंडिंग कमिटी

टाउन वेंडिंग कमिटी (टीवीसी) की लाभार्थियों की पहचान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के उपबंध के अनुसार, टाउन वेंडिंग कमिटी में निम्नलिखित के साथ अधिकतम 18 सदस्य समिलित होते हैं:

- (1) अध्यक्ष के रूप में नगर निगम आयुक्त अथवा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के मुख्य कार्यपालक
- (2) विभिन्न स्थानीय प्राधिकरण विभागों, पुलिस और पथ विक्रेताओं और व्यापारी संघों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 50% सदस्य (अध्यक्ष सहित);
- (3) पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 40% सदस्य; और
- (4) एनजीओ / सीबीओ से नामित 10% सदस्य।

12. विक्रेताओं के समूह का गठन

प्रचलित प्रथा के अनुसार, कोई ऋण देने वाली संस्था



पात्र विक्रेताओं का जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का गठन कर सकती है। राज्यों द्वारा पहले से गठित पथ विक्रेताओं के कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा जेएलजी में परिवर्तित किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा योजना का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पथ विक्रेताओं के सीआईजी का गठन करने के लिए व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। यूएलबी द्वारा तैयार की गई पथ विक्रेताओं की सीआईजी की सूची को ऋणदाता संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा। इसी प्रकार, ऋणदाता संस्थाएं तैयार की गई पात्र पथ विक्रेताओं की जेएलजी सूची को संबंधित यूएलबी के साथ साझा करेंगी।

ऐसे समूहों के गठन को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, यह व्यक्तिगत विक्रेताओं को ऋण लेने से नहीं रोकता है।

13. ई-कॉमर्स और गुणवत्ता में सुधार

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ई-कॉमर्स का संचालन करने के लिए पथ विक्रेताओं के कौशल विकास हेतु एक रोडमैप तैयार करना चाहिए और एफएसएआई (FSSAI), आदि जैसी संबंधित एजेंसियों से आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।

14. क्षमता निर्माण और वित्तीय साक्षरता

स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे बीसी/ऋणदाता संस्थाओं के



एजेंट जैसे बैंक / एनबीएफसी / एमएफआई, एसएचजी, कार्यान्वयन निकायों अर्थात् यूएलबी / टीवीसी और डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स की क्षमता निर्माण करने के लिए एक विस्तृत क्षमता निर्माण प्लान तैयार किया जाएगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्डिंग को बढ़ावा देने के लिए पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स जैसे एनपीसीआई और पेमेंट एग्रेगेटर्स की क्षमताओं का लाभ उठाया जाएगा।

15. ब्रांडिंग और संचार

ब्रांडिंग विभिन्न हितधारकों विशेष तौर पर लक्षित लाभार्थियों को स्कीम की सही जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्कीम के मानक ब्रांडिंग और संचार दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

प्रभावी और बेहतर रूप में लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए स्थानीय और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर अभिनव उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवश्यक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और क्षमता निर्माण मोड़्यूल उपलब्ध कराएगा।

16. स्कीम प्रचालन के लिए समेकित आईटी ऐप्लिकेशन

मंत्रालय स्कीम का संचालन करने के लिए मोबाइल

ऐप सहित एक समेकित आईटी प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। यह पोर्टल स्कीम के संचालन में एक सशक्त समाधान उपलब्ध कराएगा। आईटी प्लेटफॉर्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेंडर डाटाबेस को बीसी/सदस्य / ऋणदाता संस्थाओं के एजेंट, डिजिटल पेमेंट एग्रेगेटर्स और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का PAISA पोर्टल और भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा प्रबंधित उद्यमी मित्र पोर्टल के साथ समेकित करेगा।

17. कार्यान्वयन प्रणाली

यूएलबी द्वारा टीवीसी सदस्यों, बीसी/सदस्यों/ऋणदाता संस्थाओं के एजेंटों, विक्रेता संघ की आरंभिक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, पथ विक्रेताओं और ऋणदाता संस्थाओं के क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों से संबंधित सूचना साझा की जाएगी।

यूएलबी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/आईडी कार्ड के साथ आवेदक (स्ट्रीट वेंडर) बैंकों/एनबीएफसी और एमएफआई के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं या उनके द्वारा संपर्क किया जा सकता है। बीसी और एजेंट सहित ऋणदाता प्रतिनिधि आईटी प्लेटफॉर्म/मोबाइल ऐप के सर्च इंजन में प्रासंगिक ब्यौरा प्राप्त करने में निर्णायक होगा। सफल मामलों के लिए लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी (OTP) के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन होगा।

पहचान सर्वेक्षण में शामिल और सीओवी/आईडी जारी न किए गए पथ विक्रेताओं के लिए एक अनंतिम सीओवी/आईडी बनाने के लिए आईटी ऐप्लिकेशन में एक प्रावधान किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात्, बीसी/एजेंट आवेदन पत्र भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे। भरे हुए आवेदन की जानकारी फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों/टीवीसी में जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों/टीवीसी को एक पखवाड़ के भीतर विवरण को सत्यापित करना होगा, जिसके पश्चात् आवेदन मंजूरी के लिए संबंधित ऋणदाता संस्थान के पास जाएगा।

पहचान सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए गए पथ विक्रेता ऊपर दिए गए बिंदु 5 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ बीसी/एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। एजेंट

यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के लाभार्थियों के लिए पहचान दस्तावेज पहले अपलोड किए जाएं और बाद में ऊपर बताई गई एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विवरणों को सत्यापित करेगा और ऋणदाता को अग्रेषित करने से पहले सिफारिश पत्र संलग्न करेगा। सिफारिश पत्र की एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

तैयारी संबंधी गतिविधियों, जिन्हें अनुलग्नक—क में दर्शाया गया है, को जून, 2020 के दौरान किया जाएगा और जुलाई, 2020 से ऋण शुरू हो जाएगा।

18. कार्यान्वयन सहभागी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) योजना प्रशासन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यान्वयन सहभागी होगा। सिडबी स्कीम कार्यान्वयन के लिए एससीबी, आरआरबी, एसएफबी, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और एफएफआई सहित ऋणदाता संस्थानों के नेटवर्क का लाभ उठाएगा।

19. स्कीम की संचालन और निगरानी समितियां

स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और यूएलबी के स्तर पर स्कीम की निम्नलिखित प्रबंधन संरचना होगी :

क) केंद्रीय स्तर पर – सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संचालन समिति (समिति की संरचना अनुलग्नक—ग में दी गई है)।

ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर – शहरी विकास/नगरपालिका प्रशासन के प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति (समिति की संरचना अनुलग्नक—घ में दी गई है), जिसकी बैठक प्रत्येक तिमाही में होगी।

ग) यूएलबी स्तर पर, नगरपालिका आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी (ईओ) की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसे ऋणों के आवेदनों का अधिकारिक रूप से प्रबंध करने तथा स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए टाउन वेंडिंग कमिटी द्वारा सहायता की जाएगी। इस समिति की बैठक प्रत्येक महीने में होगी।

अनुलङ्घनक

अनुलङ्घनक - क

जून, 2020 के दौरान प्रारंभिक गतिविधियाँ

क्र.सं.	गतिविधि
1.	स्कीम और संबंधित गतिविधियों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों को सूचना प्रसारित करना
2.	प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना
3.	संबंधित ऋणदाता संस्थानों के बीसी/घटकों/एजेटों की मैपिंग करना
4.	टीवीसी सदस्यों समेत ऋणदाता संस्थानों के बीसी/घटकों/एजेटों, विक्रेता संघों, एसएचजी संघों आदि के साथ यूएलबी द्वारा प्रारंभिक बैठकें आयोजित करना।
5.	सभी हितधारकों अर्थात् यूएलबी/टीवीसी अधिकारियों, ऋणदाता संस्थानों के बीसी/घटकों/एजेटों, डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स, एसएचजी और उनके संघ और डीएवाई-एनयूएलएम (DAY-NULM) के अधिकारी आदि के लिए क्षमता निर्माण।
6.	यूएलबी द्वारा पथ-विक्रेताओं के कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स (सीआईजी) का गठन
7.	पथ-विक्रेता (पथ-विक्रेताओं की आजीविका का संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 2014 के अनुसार, ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियमों/स्कीम की अधिसूचना जारी करना जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है।
8.	ऐसे विक्रेताओं की पहचान के लिए जो सर्वेक्षण से बाहर रह गए या आसपास के/विकासात्मक/ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में विक्रय करते हैं, निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता है: (क) यूएलबी द्वारा डीएवाई-एनयूएलएम के तहत एसएचजी/ संघों के माध्यम से त्वरित सर्वेक्षण करवाना और या (ख) यूएलबी द्वारा आवेदन आमंत्रित करना
9.	पंक्ति 8 में उल्लिखित विक्रेताओं के लिए अनुशंसा पत्र (लेटर ऑफ रिकमेन्डेशन) जारी करना
10.	सर्वेक्षण सूची में शामिल सभी पथ-विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वैडिंग/पहचान-पत्र (आईडी) जारी करना
11.	ऋणदाता संस्थानों के बीसी/घटकों/एजेटों, द्वारा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का गठन आरम्भ करना
12.	ऋण आवेदनों को एकीकृत करके उन पर कार्यवाही करना

अनुलग्नक - ख

₹10000 के ऋण के लिए स्कीम के अंतर्गत कैशबैंक और ब्याज सब्सिडी का चित्रण

माह	मूल	24% की दर पर ब्याज	EMI	ब्याज सब्सिडी (7%)	कैशबैंक प्रोत्साहन राशि	कुल लाभ
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(घःड.)
1	₹746	₹200	₹946	₹58	₹100	₹158
2	₹761	₹185	₹946	₹54	₹100	₹154
3	₹776	₹170	₹946	₹50	₹100	₹150
4	₹791	₹154	₹945	₹46	₹100	₹146
5	₹807	₹139	₹946	₹42	₹100	₹142
6	₹823	₹122	₹945	₹36	₹100	₹136
7	₹840	₹106	₹946	₹32	₹100	₹132
8	₹856	₹89	₹945	₹27	₹100	₹127
9	₹874	₹72	₹946	₹22	₹100	₹122
10	₹891	₹55	₹946	₹17	₹100	₹117
11	₹909	₹37	₹946	₹12	₹100	₹112
12	₹927	₹19	₹946	₹6	₹100	₹106
कुल	₹10,001	₹1,348	₹11,349	₹402	₹1,200	₹1,602
ब्याज का प्रतिशत		100%		ब्याज का 30%	ब्याज का 88%	118%

“अतः अधिकतम कैशबैंक राशि और ब्याज सब्सिडी की राशि ₹1600 (कैशबैंक के रूप में ₹1200 और ब्याज सब्सिडी के रूप में ₹400) होगी जो कि 24% की ब्याज दर के साथ ₹10000 के ऋण पर पर ₹1348 के कुल ब्याज का 118% है।”

अनुलेखनक - गा

प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा जो निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पद	भूमिका
1	सचिव, आवासन और शहरी कार्य	अध्यक्ष
2	सचिव, एमएसएमई या उनका नामिती	सदस्य
3	सचिव, डीएफएस और उनका नामिती	सदस्य
4	कार्यकारी निदेशक, नॉन बैंकिंग विनियमन विभाग, आरबीआई सीएमडी सिडबी	सदस्य
5	सीएमडी, सिडबी	सदस्य
6	मंत्री, आवासन और शहरी कार्य द्वारा नामित किए जाने वाले तीन राज्यों के प्रधान सचिव (UD/LSG)	सदस्य
7	सीईओ, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	सदस्य
8	सीईओ, एमएफआईएन	सदस्य
9	कार्यकारी निदेशक, सा—धन	सदस्य
10	संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (DAY-NULM)	सदस्य संयोजक

टिप्पणी: मंत्रालय आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य सदस्य का चयन कर सकता है।

अनुलूपनक - घ

स्कीम की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित समिति का गठन करेंगे:

क्र. सं.	पद	भूमिका
1	प्रधान सचिव/सचिव, शहरी विकास/नगरीय प्रशासन	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
3	आरबीआई के राज्य प्रतिनिधि	सदस्य
4	सिडबी के राज्य प्रतिनिधि	सदस्य
5	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक (एसएलबीसी)	सदस्य
6	रोटेशन के आधार पर आमंत्रित किए जाने वाले 05 नगरीय आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
7	एनबीएफसी/एमएफआई से 02 विशेष आमंत्रितगण (अध्यक्ष द्वारा नामित)	विशेष आमंत्रितगण
8	परियोजना निदेशक—SUDA / मिशन निदेशक MEPMA	सदस्य संयोजक

अनुलूपनक - ड.

ऋण आवेदनों का अधिकारिक रूप से प्रबंध करने और स्कीम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने हेतु शहर/शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पद	भूमिका
1	नगरीय आयुक्त (MC) / कार्यकारी अधिकारी (EO)	अध्यक्ष
2	प्रधान जिला प्रबंधक (LDM)	सदस्य
3	नगरीय आयोग / EO द्वारा नामित टीवीसी/अनंतिम टीवीसी से 03 गैर कार्यालयी प्रतिनिधि जहां अनंतिम टीवीसी भी उपलब्ध नहीं है, वहां MC/EO द्वारा कस्बे के पथ विक्रेता संघ से नामित 3 सदस्य तक	सदस्य
4	एनबीएफसी/एमएफआई के प्रतिनिधि (MC/EO, प्रत्येक द्वारा प्रत्येक से एक—एक नामित)	सदस्य
5	सीएलएफ/एएलएफ का प्रतिनिधि	सदस्य
6	परियोजना अधिकारी DUDA/MEPMA या शहरी स्थानीय निकाय से समकक्ष अधिकारी	संयोजक

नोट्स



आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

Website: mohua.gov.in • Email: dir-nulm@gov.in